

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-दीदारगंज

25 हजार का इनामिया, शातिर लूटेरा व गैंगेस्टर एक्ट में फरार चल रहा बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से हुआ घायल

घायल अभियुक्त अंकुश गौतम उर्फ करन पुत्र राजाराम निवासी पुष्पनगर थाना दीदारगंज आजमगढ़ जो मु0अ0सं0 58/2020 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना दीदारगंज आजमगढ़ में फरार चल रहा था । जिसके उपर पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ द्वारा 25 हजार रूपये का ईनाम भी घोषित किया गया था । अभियुक्त अंकुश गौतम उर्फ करन के विरुद्ध जनपद आजमगढ़, वाराणसी एवं चन्दौली में लगभग एक दर्जन से अधिक संगीन अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं ।

*पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह * द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष दीदारगंज श्री संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा हैदराबाद बाजार में समय 22:17 बजे वाहन चेकिंग कर रहे थे कि उसी दौरान एक व्यक्ति मोटर साइकिल पर पुष्पनगर की ओर से आता हुआ दिखाई दिया । संदिग्ध होने पर पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी से रुकने का ईशारा किया गया तो उक्त व्यक्ति अपनी गाडी को और तेजी से भगाने लगा । पुलिस टीम ने जैसे ही उस व्यक्ति का पीछा किया कि उक्त मो0सा0 चालक द्वारा पुलिस टीम के उपर जान से मारने की नियत से फायर किया । कुछ ही दूर भागने पर असई मोलनापुर मार्ग मोड़ पर उक्त व्यक्ति अनियन्त्रित होकर मो0सा0 के साथ गिर गया और पुनः जान से मारने की नियत से निशाना साधते हुये पुलिस टीम पर फायर किया । पुलिस पार्टी द्वारा प्रशिक्षित तरीके से अपना बचाव करते हुए नियंत्रित जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया । पकड़े गये बदमाश से नाम पता पूछते हुए भागने व फायरिंग का कारण पूछा गया तो अपना नाम अंकुश गौतम उर्फ करन पुत्र राजाराम निवासी पुष्पनगर थाना दीदारगंज आजमगढ़ बताया । मौके से अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा, एक अदद जिन्दा कारतूस व दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर तथा एक अदद मोटर साइकिल सुपर स्पेलण्डर बिना नम्बर प्लेट बरामद हुआ । अग्रीम पुछताछ में उसने बताया कि मैं गैंगेस्टर का फरार व इनामिया अपराधी हूँ । मेरे पास अवैध असलहा था जिसके डर से मैं भाग रहा था । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर क्रमशः 1. मु0अ0सं0 126/2021 धारा 307 भादवि 2. मु0अ0सं0 127/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर अग्रीम कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अंकुश गौतम उर्फ करन पुत्र राजाराम निवासी पुष्पनगर थाना दीदारगंज आजमगढ़ ।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 126/2021 धारा 307 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 127/2021 धारा 3/25 आयुद्य अधि0 थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 62/2019 धारा 392/411 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 83/2019 धारा 419/420 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 84/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 0003/2015 धारा 363/366/504/506 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 75/2021 धारा 174ए भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 126/2021 धारा 307 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।
7. मु0अ0सं0 127/2021 धारा 3/25 आयुद्य अधि0 थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0 58/2020 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
9. मु0अ0सं0 881/2017 धारा 120बी/420 भादवि थाना कैन्ट जनपद वाराणसी
10. मु0अ0सं0 260/2017 धारा 223/224/120बी भादवि जनपद चन्दौली
11. मु0अ0सं0 105/2014 धारा 311/419 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
12. मु0अ0सं0 264/2017 धारा 363/366 भादवि थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी ।

बरामदगी

1. एक अदद तमंचा .315 बोर
2. दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर
3. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
4. एक अदद मोटर साइकिल सुपर स्पेलण्डर बिना नम्बर प्लेट

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1. थानाध्यक्ष दीदारगंज संजय कुमार सिंह मय हमराह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।
2. चौकी प्रभारी मार्टीनगंज उ0नि0 श्री बांक बहादुर सिंह मय हमराह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।